

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 612]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1626.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, महाराजपुर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, महाराजपुर, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार रामदयाल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मुकेश कुमार चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	अनिल चौरसिया (पटवारी)	बहुजन समाज पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	काशीबाई प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	चौरसिया देवी शान्ति	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	कृष्णा कुमारी पत्नी रमेश लल्ला	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	संगीता गब्बू चौरसिया	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	राजकुमार ऊर्फ दयाराम	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	चौरसिया देशराज (हल्के)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगरपालिका परिषद्, महाराजपुर, जिला छतरपुर.	पार्षद	9	नौ	प्रेमबाई प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	पुष्पेन्द्र ऊर्फ पप्पू चौरसिया	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती साधना यादव पत्नि श्री मनोज यादव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	अर्जुन अनुरागी	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती विद्या देवी उपाध्याय w/o श्री हरगोविन्द उपाध्याय	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	राहुल पुरोहित	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सप्पी पटैल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1627.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, नौगांव, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद्, नौगांव, जिला छतरपुर	अध्यक्ष	-	-	-	अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरे	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	मीरा राजेन्द्र कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
3		पार्षद	2	दो	“सरोज श्री राम यादव”	भारतीय जनता पार्टी	
4		पार्षद	3	तीन	योगेन्द्र सिंह घोष	निर्दलीय	
5		पार्षद	4	चार	जीतेन्द्र सिंह यादव	निर्दलीय	
6		पार्षद	5	पांच	प्रेमनारायण चंदेल उर्फ डब्लू	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7		पार्षद	6	छः	आशा कृष्णपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी	
8		पार्षद	7	सात	“कमलेश अरजरिया”	भारतीय जनता पार्टी	
9		पार्षद	8	आठ	संदीप गुप्ता	निर्दलीय	
10		पार्षद	9	नौ	अजंजा-वीरेन्द्र राजपूत	भारतीय जनता पार्टी	
11		पार्षद	10	दस	प्रदीप/हरसू महाराज	भारतीय जनता पार्टी	
12		पार्षद	11	ग्यारह	जितेन्द्र सिंह (इसाई) उर्फ छोटू भइया	इंडियन नेशनल कांग्रेस	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगरपालिका परिषद्, नौगांव, जिला छतरपुर.	पार्षद	12	बारह	निर्मला प्रीतुल सकसैना	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	आशु सुधा शिवहरे	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	आशा रानी तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मुन्नी	बहुजन समाज पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	मनीष साहू	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	रुकमणी अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अठारह	जाटव मुरारी	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	जमुनीदेवी बिछोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	“अमित कुमार रैकवार”	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1628.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, छतरपुर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल	क्रमांक केवल	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, छतरपुर, जिला छतरपुर	अध्यक्ष	-	-	अर्चना गुड्डू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	द्रोपती कुश्वाहा	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति पुष्पा प्रमोद चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुरभी विशाल शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सुरेन्द्र साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रामकली बरार पत्नी पंचम लाल बरार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	स्वाती सोनू गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	धांधू यादव	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति रेखा चौरसिया पत्नी श्री पुष्पेन्द्र चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	विमला ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अखिलेश मातेले उर्फ डालडे	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	बसंत पाठक	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगरपालिका परिषद्, छतरपुर, जिला छतरपुर	पार्षद	12	बारह	श्रीमति प्रेम हीरा लाल कोरी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	शमा बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अकरम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अफजल खान	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	मानकुंअर पटेल	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	माया अरविन्द त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	चंद्रप्रकाश (शालू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	अनीता मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	पुरूषोत्तम शिवहरे (लाले)	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	राजकुमारी प्रदीप साहू	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	अभिषेक पाठक जुगल किशोर पाठक	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	कुन्ती सेन	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	कु. सरोज रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमती शाइस्ता	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	अब्बास अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
28		पार्षद	27	सत्ताईस	कमला खरे "चाची"	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	मनोहर सिंह	निर्दलीय
30		पार्षद	29	उन्तीस	आनन्द मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31		पार्षद	30	तीस	बेलदार कुशमा बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इकतीस	कीर्ति विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	पान कुंवर पाठक	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	सुनील वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौतीस	शिखा शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	विनय पटैरिया	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	रामकली अवस्थी	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	विनोद कुमार अनुरागी	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	राघवेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्तालीस	बृजेश कुमार दिवेदी	भारतीय जनता पार्टी
41		पार्षद	40	चालीस	अनुरूद्ध कुमार राजपूत	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1629.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, राजनगर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, राजनगर, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	रचना विवेक उर्फ रिकू पटैरिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अहीर चतुरेश	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	आकाश अग्निहोत्री (मोंटी)	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अवधेश नरवरिया	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अहिरवार कुसुम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	गुप्ता पूनम सतीश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नीलम-गोविन्द रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अली जाकिर हुसेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	बकरीदन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	नईमखाँ	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	राजिया अली पति सादिक अली	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	शायरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	चित्रा धर्मचन्द्र जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मेकल पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कन्धेदी कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	नीतेश राजेन्द्र जैन	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1630.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, हरपालपुर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, हरपालपुर, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	ममता, राजेन्द्र वेसाखिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद्, हरपालपुर, जिला छतरपुर.	पार्षद	1	एक	कैलाश यादव	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	साधना संजय राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	भारती	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अहीर श्याम विहारी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	राम प्रकाश सेन	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	विष्णु राय	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	आदित्य त्रिपाठी	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	अशोक किरन घुरा	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	फुन्दन वैगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अर्चना महेश राय	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रगति सिंह पप्पू सेंगर	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	सुनील (छोटू) बत्रा	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	मातादीन अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मायादेवी (मनीष) पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	किरन देवी	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1631.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बारीगढ़, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बारीगढ़, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	रामबाबू प्रजापति	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	चौरसिया हरदयाल	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	चौरसिया धनीराम उर्फ मिठाईलाल	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	आरती चौरसिया	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	महेश्वरीदीन उर्फ राजू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	वीरेंद्र कुंडे	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	रामऔतार शिवहरे (लाला)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती दीप्ती चन्द्रभान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती राजकुमारी लाखन सिंह	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अहिरवार रानी बाबादीन	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	उत्तरा बृजभान सिंह	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	बड़ी बहू अहिरवार	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	अहिरवार सुखिया	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	हरदयाल अहिरवार	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	संगीता गोपी चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संगीता उदयभान सिंह	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1632.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सटई जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सटई जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अवस्थी माया शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	कलावती पाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	आदिवासी गनपत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	काछी कृपाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	बढोलिया राजकुमारी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	विवेक सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	भागवती रैकवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	पप्पू रैकवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	स्नेहा जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	हल्कीबाई कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	गडरिया शीला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	काछी गुलाब	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	काशीराम कुशवाहा	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	आरती जाटव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	काछी मकुंदी कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार काशीराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1633.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बिजावर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बिजावर जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	भूपेन्द्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	“काशीवाई देवीदीन कुशवाहा”	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रजनी खटीक	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	बाला प्रसाद विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शानू असगर अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मोहनी वाई कोरी	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	राजकुमारी राजेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	आशा राघवेन्द्र लटौरिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	निशा परवीन	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	सन्तोष खटीक	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	किशोरी लाल कौंदर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुनीता महेन्द्र जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	शहजाद सिद्दीकी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अशोक अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	शकूर खांज मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहीर मलखान सिंह	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1634.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, लवकुश नगर, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, लवकुश नगर, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अनुरागी कुसमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	राजबहादुर अहिरवार	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	राधा रामकिशोर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	प्रवीण कुमार प्रजापति	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	अपना रामस्वरूप खरे उर्फ बाबूजी	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	लीले रैकवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती रानी देवी रोहित चौरसिया	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	अहिरवार पारवती	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	उर्मिला पटेल w/o राजाभइया पटेल	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	गायत्री दीक्षित	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	लखन कुमारी प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	जुबेदा खातून	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	नजमा खातून	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रेमा देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कल्लू खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अनिल त्रिपाठी "एडवोकेट"	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1635.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार गीता मोतीलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	संध्या मिश्रा	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	पंचम लाल पटेल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	मोहन लाल पटेल	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	रागिनी चौरसिया (पचौरी)	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सेर सिंह बेलदार	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	सतीश कुमार चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	उमाशंकर उर्फ मुल्ले चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती पुष्पा मद् दन नायक	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमती स्नेहलता चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	नरेन्द्र कुमार चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	ब्रजेश दलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	शकुन्तला चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	विनीता राजेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	कुसुम प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार धर्मवती	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1636.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, खजुराहो, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, खजुराहो, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	कविता विक्रम सिंह (नातीराजा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रामअवतार चौबे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	उर्मिला पटेल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	दुर्गा पटेल	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	भुमानीबाई अनुरागी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	कमला सिंह देवी राजा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	मुन्नी बेगम सलमान	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	हृदेश पाठक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सरमनबाई अहिरवार	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अन्नत पाल सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	शोभारानी परशुराम तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	आदित्य विनोद ताम्रकार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	पुष्पा जीतू श्रीवास्तव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	अवस्थी सपना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	बिन्नु विद्रावन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	उर्मिला पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1637.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चन्दला, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, चन्दला, जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अनित्या सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अहिरवार अनीता	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	सम्पत राजाराम	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	अहिरवार रामसनेही	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती ममता गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अंसारी नफीस पिता मुफीद अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	अनीता सोनी पत्नी श्री रामरतन सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	धर्मेन्द्र यादव	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	रमेश प्रसाद साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अनुरागी कल्ला	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	बर्मा नरेन्द्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती रेवती त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अहिरवार ममता देवी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दीक्षित मीरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	अंसारी रोशनजहां	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	नईम उर्फ सरदार	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1638.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बड़ामलहरा जिला छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	शफीक मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	पुष्पा राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राकेश सौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुमन	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	सुरेन्द्र सिंह परमार	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	लखन लाल रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	भावना रैकवार	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	मोदी संध्या	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रज्जू राजाराम	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	मानबाई पति चन्द्रभान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कस्तूरी चउदे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	असाटी रामकिशोर उर्फ बडे मुन्ना	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	सुभद्रा राजा बुन्देला	बहुजन समाज पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सीमा प्रजापति	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	अहिरवार लाल्ले	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	नथुवा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1639.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, बकस्वाहा, जिला छतरपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद, बकस्वाहा, जिला छतरपुर	अध्यक्ष	-	-	देवकी नंदन पिता घनश्याम दास गंधर्व	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सुमतरानी-श्याम लाल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती सुधा-राजेश तिवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सलमा बेगम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	अहीर पूजा चन्द्रकान्त उर्फ चाली यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	सौरभ पाटकार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मुलायम चन्द्र फट्टा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरोजरानी-महेन्द्र साथी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति शारदा-अनुरुद्ध बिल्थरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	माया पटेल पति राम प्रसाद पटेल (चच्चे)	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	किशन प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	जितेन्द्र कुमार जैन	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	हेतराम तिवारी	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	हल्लू साहू	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती चन्दा अहिरवार	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार कविता	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1640.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी, अक्षय जिला शिवपुरी		-	-		मुन्नालाल कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक		भावना राजकुमार पाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो		मुन्नी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन		विष्णु राठौर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार		वर्षा संजय गुप्ता (पप्पू)	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच		किरण सैन हरी गोपाल सैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः		मनीष गर्ग मंजू डिक्स वाले	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात		ज्योति आशीष (भोलू) धाकड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ		मनीषा गौतम	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ		आकाश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस		अनिल शर्मा "अन्नी भैया"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह		नीलम अनिल बघेल	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह		सरोज महेन्द्र धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह		संजय परिहार	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह		मीना सुधीर आर्य	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह		अरुण शर्मा (पंडित)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17		पार्षद	16	सोलह	लाल जीत करन आदिवासी	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	राजेन्द्र कुमार यादव उर्फ राजू यादव	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अट्ठारह	लक्ष्मी राठौर अशोक राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	मनीषा विनीत सिंह (रामू)	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	रेखा गजेन्द्र गब्बर (परिहार)	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	जरीना शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	चन्द्र कुमार वंसल (चन्दू भैयया)	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	साइस्ता कदीर खान वल्लू	निर्दलीय
25		पार्षद	24	चौबीस	बलवीर सिंह यादव (बल्लू)	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	देवेन्द्र (पवन) शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	सुरेन्द्र रजक	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	हरिओम (काका)	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	अनीता अजय भार्गव	निर्दलीय
30		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती ममता मदन सेजवार	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	बैजयंती मदन देशवारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इकतीस	पंकज शर्मा (महाराज)	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	डॉ. विजय खन्ना	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	इस्माईल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
35		पार्षद	34	चौँतीस	गौरव चौबे	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती किरन नीरज खटीक	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	राजकुमारी कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
38		पार्षद	37	सैंतीस	मालती देवी ज्ञान प्रकाश जैन	भारतीय जनता पार्टी
39		पार्षद	38	अड़तीस	भानू दुबे	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्चालीस	श्याम लाल राजे	बहुजन समाज पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1641.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बदरवास, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बदरवास, जिला शिवपुरी.	अध्यक्ष	-	-	प्रयाग बाई परिहार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		पार्षद	1	एक	भूपेन्द्र यादव (भोले)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	कसुमल बाई परिहार पति श्री लक्ष्मण सिंह परिहार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	प्रमिला यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमती तृप्ति यादव पत्नी श्री कल्याण सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रश्मी ग्वाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	पार्वती राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सुआलाल सुमन	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	राजकुमारी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	राधेश्याम बंसल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	राजेन्द्र गुप्ता (राजू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	लीलाबाई यादव (माताजी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती रजनी पत्नी श्री हरीश अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	बादम सिंह कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	ग्यारसी राम कुशवाह	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कमलेश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1642.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, करेरा, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद, करेरा, जिला शिवपुरी	अध्यक्ष	-	-	कोमल प्रसाद साहू	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रामेश्वर कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमती भारती पत्नि सतेन्द्र उर्फ सोनू दुबे	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	सुमित उर्फ रामू तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सावरा बेगम	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		पार्षद	5	पांच	मोहम्मद यूनिस	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कलावेदी पारस	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	नन्हे खां	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राजकुमारी जाटव	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	संगीता जैन समोहा वाले	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	नरेश कुमार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुकेश राय	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	आकाश नरवारे	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	निशा यादव	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती उषा राजू खटीक	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राजकुमारी-कोमल (धरम्) यादव	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1643.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद, कोलारस, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद, कोलारस, जिला शिवपुरी	अध्यक्ष	-	-	रविन्द शिवहरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	राजकुमार उर्फ राजू भार्गव	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	अनीता 'सोनू' जादौन	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रेखा वीरसिंह जाटव	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	केशरी चन्द बिन्दल	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	मुस्तरी वानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	मंगल सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सेवाबाई रघुवीर यादव	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	रामबाबू निवौरिया	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	महेश कुमार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	हुकुम सिंह लल्लू जाटव	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मिथलेश जाटव	बहुजन समाज पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13		पार्षद	12	बारह	लक्ष्मीवाई कुशवाह	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	सोनू बाई सेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	यमुना वैश्य	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रचना भानू जाट	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1644.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बैराठ, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बैराठ, जिला शिवपुरी	अध्यक्ष	-	-	सुशीला-दौलत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रामश्री रावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	हर्षवर्धन व्यास	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	कमल किशोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सरोज अग्रवाल	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	विध्या पत्नि घंसू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	राजीव सिंघल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुचित्रा पत्नि सोनू बेड़िया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रविशंकर नामदेव पुत्र अशोक कुमार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नीरज गुप्ता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	गिरजा पत्नि भरत रावत	बहुजन समाज पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुखिया पत्नि मांगीलाल सेन	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सखी धाकड़ पत्नि रामबाबू	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	डॉ. शिवसिंह धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	भबूती पत्नि राजाराम	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बाईसराम पुत्र लालाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1645.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, खनियाधाना, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	अध्यक्ष	-	-	भैया शैलेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	आशीष जैन उर्फ जैनु	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	राजबेटी इन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	भगू आदिवासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	सीमा राजीब सेन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	नवीता वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	वंदना जितेन्द्र खरे (बंटी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	पार्वती अशोक कुमार मांझी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	प्रदीप जैन उर्फ पिन्डू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	इन्द्र सिंह कुशवाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	नंदनी वंशकार	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	सरदार सिंह परिहार	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	रिजबाना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सज्जाद अली मुस्ताक अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	मोहम्मद युनुस	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रामरती राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1646.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पिछोर, जिला शिवपुरी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पिछोर, जिला शिवपुरी	अध्यक्ष	-	-	संजय पाराशर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती लीलावती (जीजी)	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुनील कुमार लोधी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती मंजूलता गुप्ता (रूसिया)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सुधा राजकुमार केवट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	भैया हल्केराम लोधी (हितेन्द्र लोधी)	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	कुमारी आशमा बानो	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	रमाकान्त पटसारिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सरोज (मुन्ना) दुबे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अशोक कुमार लिटोरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	गोपाल घावरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	वीरन कुमार आदिवासी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	राधेलाल रजक	निर्दलीय
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती गीता बलबीर सिंह कोली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	मिथिला पत्नी मनीराम केवट	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रामवती मनोहर अहिरवार	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.